

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 644]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014—पौष 9, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1853.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, डोंगर परासिया, जिला छिन्दवाड़ा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	केवल अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	नगरपालिका परिषद्, डोंगर परासिया, जिला छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	-	गीता यादव	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	-	दुर्गा उइके	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	-	“शैलेन्द्र कुमार वर्मा”	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	-	अशरफ खान (बब्लू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	-	नजमा आसीद कश्मीरी	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	-	अंजु उइके	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	-	धनराज धुर्वे	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	-	(मंजु कैलाश नागलकर)	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	नगरपालिका परिषद्, डोंगर परासिया, जिला छिन्दवाड़ा.	पार्षद	8	आठ	“ममता साहू पति शिवचरण साहु”	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	अर्चना महेश गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	अनीता कमल अरोरा	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती सविता शक्ति नंदन श्रीवास्तव	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	“दीपक राय”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह		
15		पार्षद	14	चौदह	मीना गोविन्द यदुवंशी	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	राधे सूर्यवंशी	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	श्रीमति राजरानी कैथवास	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	भगवान दास झा	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अट्ठारह	कलीम खां	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	नफीस अहमद	निर्दलीय
21		पार्षद	20	बीस	राकेश सुमन (छोटू)	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	“आशा देवी ठाकुर”	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1854.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	ओम अग्रवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	समीना ईसाक मंसूरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	संतोष कुमार वर्मा S/o मेवालाल वर्मा	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	नगरपालिका परिषद्, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पार्षद	3	तीन	सुरेन्द्र सोनी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	श्रीमति किरण चौरसिया	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	गायत्री/संजय चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	रामधारा गोपाल वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	रञ्जन सल्लाम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	सिरपत नायक	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	प्रीति संदीप सनोडिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	अंकित पाण्डे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	नंदलाल वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	अमित सोनी	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	कल्याण सिंह (राजा राय)	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	ममता सुरेन्द्र राय	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अशोक कुमारी/शिवनारायण वर्मा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1855.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	नवीन जैन	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	देवीलाल पदमसिंह पटेल	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	दया मुन्नी सराटे	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमति लाजवंती प्रकाश ठाकुर	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	विनोद डेहरिया	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	नगरपालिका परिषद्, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पार्षद	5	पांच	इन्द्र कुमार भलावी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	श्रीमति निधि राघवेन्द्र राय	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सरला साहू	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	लकी पंकज चौरसिया	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	रज्जूग्रीन	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	संतोष पटेल	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	लता/ दर्शन राठौरिया	बहुजन समाज पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	ऋषभ जैन	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	नीतू संजय यादव	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	पुष्पा सरजू वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	संतू साहू उर्फ सतीश साहू	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1856.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, न्यूटन चिखली, जिला छिन्दवाड़ा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, न्यूटन चिखली, जिला छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	“हेमन्त राय”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	“आशा डेहरिया”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	गुरुप्रसाद इरपाची	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	जुमरत बी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	रमेश साहू	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सावित्री रडवे	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	अनिल कुमार	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सावित्री सुखलाल भनारिया	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	नगर परिषद्, न्यूटन चिखली, जिला छिन्दवाड़ा.	पार्षद	8	आठ	रायवती सराठी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	“लक्ष्मी नीरज बाथरी”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	कृष्ण कुमार वर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	सुनीता हरि आठनकर	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	मनीष पटेल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	अशोक भनारिया	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	रुस्तम खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सीता पाल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1857.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, लोधीखेडा, जिला छिन्दवाड़ा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, लोधीखेडा, जिला छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	लिलाधर बांगडे	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	ज्योति नरेश कोल्हट्कर्	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	पुष्पा काशिनाथ निमजे	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	शाहिना वाहाब खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	शैलेंद्र जैस्वाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	रुपेश बागडे	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	त्रिवेनी (पिंकी) दिपक भगत	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	होमदेव वंजारकर	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	नर्मदा रमेश नंदनवार	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	किरण ओमकार गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	चंद्रकला दिपील नंदनवार	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	नगर परिषद्, लोधीखेडा, जिला छिन्दवाड़ा.	पार्षद	11	ग्यारह	प्रमोद रायकवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	नारायण भगत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	विनायक बल्की	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	दिपक जोशी (गुरुजी)	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रमेश भोयर	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1858.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बडकुही, जिला छिन्दवाड़ा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बडकुही, जिला छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	माया डेहरिया	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	कमलेश पटेल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	संगीता सूर्यवंशी पति नरेश सूर्यवंशी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सहजाद खान/ सुबराती	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	बरखा कैथवास	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	आरती राज	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	विमला इवनाती	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सरोज डेहरिया	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	नमिता कठौते	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति रामसखी यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	दुर्गा प्रसाद बुनकर	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	मुरलीधर ठाकरे पिता श्री सहादेव राव ठाकरे.	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	ताराचंद जुनेजा/ श्री कश्मीरी लाल जुनेजा.	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	राजाराम बेलवंशी पिता स्व. रामलाल बेलवंशी.	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	नगर परिषद्, बडकुही, जिला छिन्दवाड़ा.	पार्षद	14	चौदह	गायत्री अनिल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	प्रमिला प्रकाश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1859.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, पिपलानारायणवार, जिला छिन्दवाड़ा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, पिपलानारायणवार, जिला छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	नरेन्द्रसिंह परमार (राजु भैया)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	हेमराज मोहपत कोठे	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	श्रीमति कंचन अरूण चटकवार	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	हिरामन बडगू गजभिये	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	श्रीमति सुमित्रा राममाऊ लाडसे	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमति रेखा रामराव मदनकर	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	श्रीमति वंदना तेजराव गायकवाड	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सुनिल चैतराम वडे	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	हेमराज राजेराम चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	पुरुषोत्तम लक्ष्मण जुनघरे	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	श्यामराव भालेराव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	चित्रलेखा संजय कोचे	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	कल्पना वासुदेव विरखरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	मनोहर निलकंठ कोठे	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमति ताई सेवकराम मदनकर	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	दिलीप रामभाऊ बखाल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1860.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, चांदामेटा बुटारिया, जिला छिन्दवाड़ा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, चांदामेटा बुटारिया, जिला छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	हरिश्चंद्र अग्रवाल पिता जीवन लाल अग्रवाल.	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	सुशीला ककोडिया	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	चन्द्रशेखर नरें S/O स्व. श्री गेंदालाल नरें	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	श्रीमती शशि जुगल विश्वकर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	राजू पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	विनीता सनोडिया पति पंकज सनोडिया	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	पुष्पा शिवयादव	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सरीता संतोष बेहरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	संजय सोनी	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	मीनाक्षी कैथवास (बावरिया)	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	गंगाराम बावरिया	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	नजमा खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	रामप्रसाद रम्मू साहू	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सरोज अरुण यदुवंशी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अमजद खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	राकेश शर्मा (कक्का)	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1861.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा के माह दिसम्बर 2014

में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	दीपिका पति महिपाल चोपड़े	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	पिलाजी मानमोड़े s/o गोपीचन्द मानमोड़े	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	पम्मी पति रमेश नागरे	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	राधा कन्हैड़ भिनोटे	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	बबीता गाकरे पति सन्तोष गाकरे	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	घनश्याम पिता मंगल कडवे	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	राधा (राया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	कैलाश मालवीय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	अनिता पति सुखदेव बोबड़े	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	गगन पिता उदय प्रकाश शिवहरे	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	डॉ. जगदीश पराडकर	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	कीर्ति यादव पति कैलाश यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	रधू मांडेकर पिता गोरेलाल मांडेकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	महेश मर्सकोले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	गीता बोबड़े	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	अनिता पति रमेश मानमोड़े	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1862.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, चांद, जिला छिन्दवाड़ा के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	केवल शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, चांद, जिला छिन्दवाड़ा.	अध्यक्ष	-	-	भारती त्रिषि वैष्णव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	सुनंदा डालचंद चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	नगर परिषद्, चांद, जिला छिन्दवाड़ा.	पार्षद	2	दो	रीना हेमंत चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सम्पत लाल साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	कमलेश चौरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	मीना जैन	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	नरेंद्र कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	सुमित्रा हरीश शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	बनवारी माहोरे	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	शेख सलीम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	ममता कहार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	भूपेंद्र सिंह तंतुवाय पिता स्व. श्री धनराज प्रसाद.	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	लता पाटिल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सीमा/ राजकुमार परानी	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अमीना बी पति शेख बसीर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	नरेश कुरेती	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.